



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]
No. 197]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1978/आषाढ़ 10, 1900
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1978/ASADHA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
(कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

सांका०नि० 349(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियमन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियमन) अधिनियम, 1978 है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उप-शीर्ष "दिल्ली प्रशासन के अधीन पद" तथा उनके नीचे उपशीर्ष और प्रविष्टियों के स्थान पर शीर्ष "संघ प्रशासित क्षेत्र" के अधीन भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियमन) विनियम, 1955 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"दिल्ली प्रशासन के अधीन पद"	30
पुलिस आयुक्त	1
पुलिस अपर आयुक्त (रैंज)	1
पुलिस अपर आयुक्त (प्रशासन)	1
पुलिस अपर आयुक्त (सशस्त्र पुलिस)	1

पुलिस अपर आयुक्त (सी०आई०डी०)	1
पुलिस उप आयुक्त	2
पुलिस उप आयुक्त (जिला)	5
पुलिस उप आयुक्त सी०आई०डी० (एस०बी०)	1
पुलिस उप आयुक्त (अपराध तथा रेलवे)	1
पुलिस उप आयुक्त (सुरक्षा)	1
पुलिस उप आयुक्त (यातायात)	1
कमांडेंट दिल्ली सशस्त्र पुलिस	5
पुलिस उप आयुक्त (अष्टाचार विरोधी)	1
पुलिस उप आयुक्त (लाइन्स)	1
पुलिस उप आयुक्त (सतर्कता)	1
पुलिस अपर उप आयुक्त	3
प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	1
पुलिस अपर उप आयुक्त (सुरक्षा)	2
जोड़	30

[संख्या 11052/3/78-ए०आई०एस० (II)आ]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel & Administrative Reforms)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st July, 1978

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the

following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Union Territories" for the sub-heading "Posts under the Delhi Administration" and the entries occurring thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely :

"Posts under the Delhi Administration"

Commissioner of Police	1
Additional Commissioner of Police (Range)	1
Additional Commissioner of Police (Administration)	1
Additional Commissioner of Police (Armed Police)	1
Additional Commissioner of Police (C.I.D.)	1
Deputy Commissioner of Police	2
Deputy Commissioner of Police (Districts)	5
Deputy Commissioner of Police, (CID) (S.B.)	1
Deputy Commissioner of Police (Crime & Railways)	1
Deputy Commissioner of Police (Security)	1
Deputy Commissioner of Police (Traffic)	1
Commandant, Delhi Armed Police	5
Deputy Commissioner of Police (Anti Corruption)	1
Deputy Commissioner of Police (Lines)	1
Deputy Commissioner of Police (Vigilance)	1
Additional Deputy Commissioner of Police	3
Principal, Police Training School	1
Adl. Deputy Commissioner of Police (Security)	2
	30

[No.11052/3/78-AIS(II)-A]

सांकांनि० 350(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) नियमों की भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छद्म संशोधन नियम, 1978 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में संलग्न अनुसूची-III में,

(क) दिल्ली प्रशासन से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर उपशीर्ष 66क "संघ शासित क्षेत्र" के अधीन तालिका में शीर्ष "क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय-वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन/वेतनमान
"दिल्ली प्रशासन"	पुलिस आयुक्त	2500-125/2-2750
	पुलिस अपर आयुक्त (रेंज)	2000-125/2-2250
	पुलिस अपर आयुक्त (प्रशा०)	—तद्वै—
	पुलिस अपर आयुक्त (सशस्त्र पुलिस)	—तद्वै—
	पुलिस अपर आयुक्त (सी०आई०डी)	—तद्वै—

(ख) दिल्ली प्रशासन के आरे में मौजूदा प्रविष्टियों के लिए शीर्ष 66 "संघ शासित क्षेत्र" के अधीन तालिका में शीर्ष "ख-समय वेतनमान में वेतन के अथवा विशेष वेतन वाले पदों समेत राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ-समय वेतनमान में वेतन वाले पद" के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की होंगी, अर्थात्:—

राज्य	पदनाम
"दिल्ली प्रशासन"	पुलिस उप आयुक्त पुलिस उप आयुक्त (जिला) पुलिस उप आयुक्त (सी०आई०डी०) (एस० बी०) पुलिस उप आयुक्त (अंतराध तथा रेलवे) पुलिस उप आयुक्त (सुरक्षा) पुलिस उप आयुक्त (यातायात) कमांडेंट दिल्ली गणराज्य पुलिस पुलिस उप आयुक्त (घाटाचार-विरोधी) पुलिस उप आयुक्त (लाइन्स) पुलिस अपर उप आयुक्त प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल पुलिस अपर उप आयुक्त (सुरक्षा)।"
	[सं० I-11052/3/78-ए०आई०एस० (ii)-बी०]
	के० एल० नेगी, अपर सचिव

G.S.R. 350 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (pay) Rules Sixth Amendment Rules, 1968.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,

(a) under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Police Service under the State Governments" in the Table under the sub-heading "Union Territories" for the existing entries relating to Delhi Administration the following entries shall be substituted namely :—

State	Particulars of Posts	Pay/Scale of Pay
"Delhi Administration"	Commissioner of Police	2500-125/2-2750
	Additional Commissioner of Police (Range)	2000-125/2-2250
	Additional Commissioner of Police (Admin.)	-do-
	Additional Commissioner of Police (Armed Police)	-do-
	Additional Commissioner of Police (C.I.D.)	-do."

- (b) under the heading "B-posts carrying pay in the senior-time scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale", in the Table under the heading "Union Territories", for the existing entries relating to Delhi Administration the following entries shall be substituted, namely :—

State	Particulars of Posts
"Delhi Adminis- tration	Deputy Commissioners of Police
	Deputy Commissioners of Police (Districts)
	Deputy Commissioner of Police, CID (SB)
	Deputy Commissioner of Police (Crime & Railways)

Deputy Commissioner of Police (Security)
Deputy Commissioner of Police (Traffic)
Commandant Delhi Armed Police

Deputy Commissioner of Police (Anti-Corruption)

Deputy Commissioner of Police (Lines)
Deputy Commissioner of Police (Vigilance)
Additional Deputy Commissioner of Police
Principal, Police Training School
Additional Deputy Commissioner of Police (Security)."

[No. I-11052/3/78-AIS(II)-B]

K. L. NEGI, Under Secy.

